

भद्रवाही बोली दियां प्रमुख विशेषतां ते डोगरी कन्ने इसदा सरबन्ध

डा. सत्यपाल शास्त्री

भद्रवाही बोली हिमालय-पर्वत श्रंखला दे उत्तरी-पश्चिमी लाके च बोली जन्दी ऐ। इसदे बोलने आले दी तदाद लगभग 40 जहार ऐ। ए प्रदेश जम्मू-कश्मीर रियास्ती दे जम्मू सुबे दे जिला डोडा विच ऐ। इस लाके दा मुक्ख केन्द्र भद्रवाह, नगर ऐ, जेहङ्गढ़ा जिले दी भद्रवाह, तसील दा केन्द्र ऐ।

ए नगर समुन्दरतल कोला 5500 फुट दी ऊँचाई पर जम्मू शैहङ्गढ़ा थमां 128 मील दूर उत्तर-पूरब आलिया भेठा स्थित ऐ। भद्रवाह, प्रदेश दियां आम तौर पर ते इस नगर दियां विशेष रूपै च अपनियां खास विशेषतां न।

डा. प्रियसंन दे मतावक भद्रवाही भारती-आर्य भाशा परिवार दियें पश्चिमतर पहाड़ी बोलियें विचा इक ऐ। ओ आखदे न—

The word Pahari is applied to group of languages spoken in the sub-Himalayan extending from Bhadrawah north of Panjab to the eastern parts of Nepal.¹

असल च भद्रवाही बोलिएं दे ग्रुप च त्रै बोलियां शामल न, जिन्दे नां इस चाल्ली न—भद्रवाही, जेहङ्गढ़ी भद्रवाह, लाके च बोली जन्दी ऐ, भलेसी, भलेस दे लाके दी बोली ऐ ते पाडरी किश्तवाड़ तसील दे पाडर दे लोके दी बोली ऐ।

ए सारे लाके जम्मू प्रांत दे जिला डोडे दे अंग न। भद्रवाही ग्रुप दियें त्रीनीं बोलियें दा भाशा विज्ञान दी दृश्टि कन्ने बड़ा महत्त्व ते खास विशेषतां न।

1. LSI, Vol. IX, Part IV, P. 846

डा. ग्रियर्सन दा आखना ऐ जे पांगवाली बोली, जेहङ्गी हिमाचल प्रदेश दे 'पांगी' लाके च बोली जन्दी ऐ, वी भद्रवाही ग्रुप दी बोलियें कन्ने खासी समानता रखदी ऐ। इस लेई जेकर इसी वी भद्रवाही ग्रुप कन्ने शामल कीता जा तां कोई हर्ज नेई¹।¹

इस लेख च इनें चौनीं बोलियें विचा सिर्फ भद्रवाही दियां प्रमुख वशेशतां ते उसदे डोगरी कन्ने सरबन्ध दे बारे च गी विचार कीता गेदा ऐ।

भद्रवाही नगर दे पं. गौरीशंकर हुन्दे श्री मद्भगवद्गीता दे 1995 संवत् च कीते गेदे भद्रवाही अनुवाद दी भूमका च डा. सिद्धेश्वर वर्मा होर आखदे न जे भद्रवाही बोली नै नेकां नेह, वैदक-संस्कृत दे शब्द हून तक वी सम्हाली रख्दे दे न, जेहङ्गे नां ते लौकक संस्कृत भाषा च मिलदे न ते नां गै दूझयें भारती भाषें च मिलदे न।²

डा. वर्मा होर अपने लेख 'न्यूटर जेंडर इन भद्रवाही' जेहङ्गा इंडियन लिंग्विस्टिक नां दी पत्रिका च सन् 1931 गी छपेआ हा, ओदे च आखदे न जे भद्रवाही दी ए वशेशता ऐ जे इन्ने अजें बी नपुंसक लिंग गी उपेक्षत नेई³ कीते दा।³

डा. बाबूराम सक्सेना हौर इस बारे च इयां आखदे न—

Up to mediaeval times there were three genders but at present neuter gender has become extinct except in Marathi, Gujarati, Sinhalese and in Bhadrawahi and Khasi of North-Western Himalayas we find its reminiscence.

भद्रवाही बोली दियां प्रमुख वशेशतां इस चाल्ली न—

(1) भद्रवाही बोली च 9 वशेश ध्वनियां न, जिन्दे च दो स्वर ध्वनियां ते 7 व्यंजन ध्वनियां न। इन्दी तफसील इस चाल्ली ऐ—

1.1. स्वर ध्वनियां—(क) | ऐ → ए | एह, मध्य अर्ढ-विवृत, संयुक्त, अवृत्त मुखी ते शिथिल स्वर ध्वनि ऐ।

1. उऐ सफा 846

2. पं. गौरीशंकर भद्रवाही कृत श्रीमद्भगवद्गीता भद्रवाही दा अनुवाद, प्रभात प्रेस, जम्मू स. 1995, भूमका डा. सिद्धेश्वर वर्मा—

My Investigation of Bhadrawahi has shown that it is one of the most important languages of India. In this language have been preserved words which are available only in Vedas while in many ways, its grammar is older than even Prakrit.

3. Neuter gender in Bhadrawahi, Indian Linguistics, Vol. I, Parts II & IV, 1931, Lahore P 1—38

वि. :—असल च इस स्वर ध्वनि दा ठीक थाहर अद्वं-विवृत ते अद्वं-संवृत दे मझाटै औंदा ए।

उदाहरण—ऐन—केरी इंदी¹

(ख) /ओ—ओ/ एह ध्वनि अद्वं विवृत संयुक्त, वृतमुखी, मध्य ते दृढ़ ए।

उदाहरण—रोइटि—रोटियां। इसदा इकवचन 'रोटि' ए, जिसदे च अद्वं संवृत 'ओ' ध्वनि दा स्पश्ट उच्चारण होंदा ए।

1. 2. व्यञ्जन ध्वनियां—(क) /'च'/ एह, तालव्य, अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श-संघर्षी ध्वनि ए।

उदाहरण—चिडोली जां चडोली। होर उदाहरण, चन्द्र, चले, चढ़ने, चेरते, विचालो बगैरा।

(ख) /'छ'/ एह, वत्स्यं-तालव्य, अघोष, महाप्राण ते स्पर्श-संघर्षी ध्वनि ए।

उदाहरण—पोछोडी—चु'ब, छु'ली—बककरी

छड़—छोड़

छिन्दी—चीरफाड़

बच्छी—गौ

इस ध्वनि दा भद्रवाही विच इन्ना आम प्रयोग नेहि' होंदा ए। इसदे विपरीत 'छ' ध्वनि गै आम ए, जियां—छेल—शैल, लछन—लवखन, छेट्ले—खेतरै च, छैती—नौला, किछ—किश, छन—छन्न बगैरा।

(ग) /'ज'/ एह, मुद्दन्य, अल्पप्राण, सघोष ते स्पर्श-संघर्षी ध्वनि ए।

उदाहरण—अज्ञन, पूजा बगैरा।

होर उदाहरण—जे, बाजी, जने, सूरज, समजदार, अज, धजजा (जंडा), जोतन् (आखदे न), बीज, बजीर बगैरा।

(घ) /'झ'/ एह, वत्स्यं-तालव्य, सघोष, महाप्राण ते स्पर्श-संघर्षी ध्वनि ए।

उदाहरण—झल—अभगी दे भड़ांबे गी बधाना।

झैझान—बड़ले दा पैहर, मझ—बश्कार

होर उदाहरण—झड़ी (वरखा), समझी (समझी गेहि), बुझी (बुझी गेहि)

(च) /'ट्ल'/ एह, वत्स्यं, अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श-संघर्षी, पार्श्वक, संयुक्त ध्वनि ए।

उदाहरण—ट्लारा (प्यारा), ट्लुट्टी (ब्रुट्टी)

होर उदाहरण—ट्लानी (पकड़नी), ट्लाई (त्रै), टिलकालां (संत्रां दा बेला), ट्लरंगो (तिरंगा)।

1. श्री मदभगवद्गीता भद्रवाही अनुवाद पृष्ठ 'ऐन केरि तं फोज भीमे जक्कड़ी, घट्ट आहे पर अे बड़ि तक्कड़ी'।

(ਛ) ਇਲ੍ ਏਹੁ ਵਤਸੰ-ਮੂਢੰਨ्य, ਸਥੋ਷, ਅਲਪਪ੍ਰਾਣ, ਸਪੱਣ, ਪਾਖਿਕ ਸ਼ਯੁਕਤ ਧਵਨਿ ਐ।
ਉਦਾਹਰਣ—ਮਡਲਾਈ (ਮਦਰਵਾਹੀ ਬੋਲੀ), ਇਲੁਣਟੁ ਮਦਰਵਾਹ, ਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਧਿਆਰ
ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ—ਇਲਮਣ (ਉਪਤਥਕਾ), ਇਲਾਵ (ਮਰਲਾ), ਇਲੌਜ਼ (ਸੰਬ) ਬਗੇਰਾ।

(ਜ) ਇਲ੍ ਏਹੁ ਵਤਸੰ-ਮੂਢੰਨ्य, ਸਥੋ਷, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ, ਸਪੱਣ, ਪਾਖਿਕ, ਸ਼ਯੁਕਤ ਧਵਨਿ ਐ।
ਉਦਾਹਰਣ—ਇਲਾ (ਬ੍ਰਾ), ਇਲਾਟ (ਬ੍ਰਾਟ), ਇਲੇਮ੍ਸੁ (ਮਾਲੂ)

1. 3. ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਦੀ ਮਜੂਦਗੀ—ਜਿਥਾਂ ਤੁਧਰ ਦਸ਼ੇਆ ਗੇਆ ਐ ਜੇ ਮਦਰਵਾਹੀ ਨੇ
ਕੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਸਿਹਾਲੀ ਆਲਾ ਲੇਖਾ ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੀ ਸਮਾਂਹਾਲੀ ਰਖਵੇ ਦਾ
ਏ, ਏਕੀ ਇਸਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣੋਸ਼ਤਾ ਐ।

ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਮਦਰਵਾਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਕਵਚਨ ਰੂਪੇਂ ਦਾ ਉਚਚਾਰਣ ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਤੇ ਪੁੱਲਿਗ
ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ, ਪਰ ਬਹੁਵਰਨ ਵਿਚ ਫਕੰ ਪੇਈ ਜਨਵਾ ਏ। ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਚ ਬਹੁਵਰਨ ਰੂਪੇ
ਕਨੇ 'ਆਂ' ਪ੍ਰਤਿਯ ਲਗੀ ਜਨਵਾ ਏ, ਪਰ ਪੁੱਲਿਗ ਚ ਕਿਥ ਨੈਈ ਲਗਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣ, ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ—(ਕ) ਦੁਢ—ਦੁਢਾਂ=ਦੁਢ + ਆਂ

(ਖ) ਗਿਦ—ਗਿਦਾਂ=ਗਿਦ + ਆਂ

(ਗ) ਘਰ—ਘਰਾਂ=ਘਰ + ਆਂ

(ਘ) ਭੂਤ—ਭੂਤਾਂ=ਭੂਤ + ਆਂ=ਭੂਤ

(ਚ) ਕੁਤਰ—ਕੁਤਰਾਂ=ਕੁਤਰ + ਆਂ=ਕੁਤੇ

(ਛ) ਮਟਨੂ—ਮਟਠਾ=ਮਟਠ + ਆਂ=ਵਚਵੇ

(ਜ) ਤਿਹਾਰ—ਤਿਹਾਰਾਂ=ਤਿਹਾਰ + ਆਂ=ਤਿਹਾਰ

(ਯ) ਦਾਰ—ਦਾਰਾਂ=ਦਾਰ + ਆਂ=ਦੁਰਾਜੇ

(ਖ) ਪੁੱਲਿਗ—(ਕ) ਸਾਫ—ਸਾਫਾਂ=ਸਾਫ + 0 = ਸਾਫ

(ਖ) ਅਮਵ—ਅਮਵ=ਅਮਵ + 0 = ਅਮਵ

(ਗ) ਬਦਾਮ—ਬਦਾਮ=ਬਦਾਮ + 0 = ਬਦਾਮ

(ਘ) ਭੂਤ—ਭੂਤਾਂ (ਅਪਵਾਦ)=ਭੂਤ

1. 4. (ਕ) ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਇਹੈ-ਨੇਹੁ ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਪ੍ਰਵਦੇ ਦੇ ਬਹੁਵਰਨ ਰੂਪ 'ਏ'
ਪ੍ਰਤਿਯ ਦੀ ਸਦਦ ਕਨੇ ਬਨਦੇ ਨ।

ਉਦਾਹਰਣ—ਘਰ—ਘਰੋਂ=ਘਰ + ਏ

ਦਾਰ—ਦਾਰੋਂ=ਦਾਰ + ਏ

ਸ਼ੇਤ—ਸ਼ੇਤੋਂ=ਸ਼ੇਤ + ਏ

(ਖ) ਮਦਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਦੇ ਵਾਰੇ ਚ ਤੁਧਰ ਦਿਤੇ ਦੇ ਨਿਧਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਥਲੈ ਦਿਤੇ ਜਾਰਦੇ ਨ ਤੇ ਕਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਨਪੁੰਸਕ ਲਿਗ ਰੂਪ ਇਸੰ
ਚਾਲੀ ਬਨਦੇ ਨ, ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਚ ਪੁੱਲਿਗ ਹੈ ਰੀਹੁ ਦੇ ਨ—

नपुंसक लिंग—

भद्रवाही	गुजराती	डोगरी
सुख	सुख	सुख (पु)
अनाम	इनाम	नाम „
गुमान	गुमान	गमान „
अस्मान	आस्मान	समान „

2. 0. भद्रवाही दी डोगरी कने मती समानता होने करिए ए डोगरी दे मते कोल से'ई होंदी ऐ ।¹ इसदे बहुसंख्यक संज्ञारूप डोगरी आला लेखा न ते क्रिया रूप वी थोड़े-नेह परिवर्तन कने गे डोगरी कोला बक्खरे होंदे न । कुसै बोली दा जां भाशा दा दूई कने सरबन्ध स्थापत करने आस्तं भाशा विज्ञान दी इयै कसीटी ऐ जे दोनीं भाशें गी सामनै रविचयै उन्दी तुलना कीती जा ते उन्दी संरचना ते संज्ञारूपें बगेरा गी तुलनात्मक दृष्टि कने परखेआ-पड़तालेआ जा । डोगरी ते भद्रवाही दी तुलना करदे भौकै इयै दृष्टिकोण सामनै ऐ जेहँडा असेंगी भद्रवाही गी डोगरी दी उपभाशा मन्नने गी मजबूर करदा ऐ । थलै दित्ते दे उदाहरण इस दलील दी पुश्टी करदे न —

(क) डोगरी	भद्रवाही	डोगरी	भद्रवाही
सारत	सारथ	पानी	पानी
जाड़	जाड़	तोह	तोह
विष्वास	विश्वास	आटा	आटा

(ग) किश नेह शब्द जिन्दा उच्चारण खासी तब्दीली कने कीता जन्दा ऐ, पर फही वी दोनीं च समानता स्पष्ट झलकदी ऐ —

डोगरी	भद्रवाही	डोगरी	भद्रवाही
सरसों	जेरयो	सौरा	जेरा
विल्ली	वलाई	नूह्	नुश
मच्छर	मश्शो	जागत	मट्ठू
मीणक	मैंडो	ननद	जेर्दि
तोता	शऊ	आ	इला

(घ) किश वाक्य जिन्दी समानता ते असमानता स्पष्ट ऐ —

तू खा	तू खा
ओठ खोल	ओठ खोल
उठ खड़ो	खड़ो उठ

1. त्रिवेणी, शक्ति शर्मा श्यामलाल शर्मा, सफा 28

हिम्मत कर	हिम्मत केर
आलस छोड़	आलस छड़
हत्थ शैल चारें धो	हत्थ शैल चारें धो
खरी कुड़ी	खरी कुई
दन्द साफ कर	दन्द साफ केर
भाई भीमसेना ओ	भाई भीमसेना ओ
दाजे दा करो इन्तजाम हो	दाजे दा करो इन्तजाम हो
मनै च उदासी आई	मनेरि उदासड़ी आई

2. 1. वर्तमान कालिक कृदन्त—

डोगरी	भद्रवाही	डोगरी	भद्रवाही
पु.— ओ जन्दा ऐ	ते गाँ ते	ओ जन्दे न	तेना गातन्
स्त्री.— ओ जन्दी ऐ	उह चळोरि ए	ओ जन्दियां न	तैना चळोरि अण्

2. 2. भूत कालिक कृदन्त—

पु.— ओ गेआ	ते जोअ	ओ गे	तेना जो ऐ
स्त्री.— ओ गेई	ते जेई	ओ गेइयां	तेना जेई

2. 3. भविष्यत् कालिक कृदन्त—

पु.— ओ जाग	ते गालौ	ओ जाडन	तेना गाले
स्त्री.— ओ जाग	ते गाली	ओ जाडन	तैना गैली

2. 4. आग्रह जां प्रेरणा—

पु.— ओ जा	ते गा ए	ओ जा'न	तेना गा'न
तू जा	तुस जाओ	तू गाँ	तुस गाथ
स्त्री.— ओ जा	ते गा ए	ओ जान	तेना गा'न
तू जा	तुस जाओ	तू गाँ	तुस गाथ

3. 0. (घ) थलै दित्ते दे किंश वाक्यें च डोगरी ते भद्रवाही दे रचना-विधान वी समानता ते असमानता दे बारे च स्पष्ट अलक मिली सकदी ऐ—

(1) समानता

डोगरी	भद्रवाही	डोगरी	भद्रवाही
तू खा	तू खा	हिम्मत कर	हिम्मत केर
ओठ खोल	ओठ खोल	हत्थ शैल चारें धो	हत्थ शैल चारें धो
उठ खड़ो	खड़ो उठ	खरी कुड़ी	खरी कुई
आलस छोड़	आलस छड़	दन्द साफ कर	दन्द साफ केर

(2) असमानता—

सेहूत बड़ा धन ऐ सेहूत बड़ू धन अे
 डोगरी भद्रवाही
 में नईं सुनेओं मीं नईं शुनो ए
 ओ पढ़न लगा ऐ ते पढ़ना लगो रे

डो.—भिरी भत्त, दाल ते रुट्टी मजे कन्ने खा ।

भद्र.—फिरी भत्त, दाल त रोटिट मजे सैईं खा ।

डो.—कपलास धार जड़ी-बूटियें दी खान ऐ ।

भद्र.—कबलास धार जड़ी-बूटी केरी खान आहे ।

डो.—पल्लै नईं फक्क ते जगन्नाथें दी तवक ।

भद्र.—पल्लै नईं फक्क ते जगन्नाथन जो तवक ।

3. 0. थल्लै श्रीमद्भगवद्गीता दे भद्रवाही अनुवाद, भद्रवाही रामायण ते माधो लाल पाधे दी पुस्तक 'भड़लाह ते भड़लाई' विच्चा किश पंकितयां उद्दृत कीती दियां न, जेहूँडियां डोगरी कन्ने भद्रवाही दे गूढ़े सरवन्ध दी प्रवल मसाल पेश करदियां न—

(क) सभ किछ बुज्जन अन्तरजामी (भ. रा. पृ. 1)¹

(ख) इष्टदेव मेरे भोलेनाथ (भ. रा. पृ. 3)

(ग) शिवजी चलि पे भिरी कबलासे (भ. रा. पृ. 4)

(घ) आहा कैलाश यात्रा आई (भ. शि. पृ. 49)

(च) बीते साल हजार सतासी (भ. रा. पृ. 54)

(छ) प्रतीज्ञा याद शिवजन आई (भ. रा. पृ. 4)

(ज) अच्छा जी नमस्ते (भ. शि. पृ. 22)

(झ) धीये प्रमात्मा तुह छैल बर त घर ते (भड़लाह त भड़लाई पृ. 99)

(ट) प्रभु बर दाता मशहूर, बल, बुद्धि खान भरपूर (भड़लाह त भड़लाई पृ. 55)

(ठ) जग-शेष अन्न खाने वाले सत्पुरुष पापना छुट्टतन् (भ. गी. पृ. 54)

(ड) कृष्ण कृष्ण इसैं गीता-दरयां लघो गोरी शंकरे पार पढ़ने-पढ़ाने वालन जै, शुणने शुणाने वालन जै भी, जय भो श्रीपति कृष्णे जै (भ. गी. पृ. 297)

3. 1. गोजरी आला लेखा भद्रवाही विच बी संज्ञा, विशेषन ते केई किया वाचक 'भूतकालक' शब्दे दे अन्त दी 'ओ' मात्रा गी 'ओ' च बदलने दी प्रवृत्ति ऐ—

(क) भद्र. : बड़ो मोटो ताजो घोड़ो अे ।

गोज. : बड़ो मोटो ताजो घोड़ो अे ।

1. भद्रवाही रामायण, लेखक : हन्सराज शर्मा, 1983

डोग. : बड़ा मुट्टा-ताजा घोड़ा ऐ ।

(ख) भद्र. : हकीम साझेईं झट्ट जवाव दित्तो ।

गोज. : कहीम साव ने झट्ट जवाव दित्तो ।

डोग. : कहीम साहब ने झट्ट जवाव दित्ता ।

(ग) भद्र. : राजो प्रतापी कने बलवान् ।

नीम धर्मी बड़ो बुद्धिमान् ।

गोज. :

डोग. : राजा प्रतापी कने बलवान्, नीम धर्मी बड़ा बुद्धिमान् ।

3. 2. डोगरी कोला उलट भद्रवाही बोली नै मूर्ढन्य थकार दी मजूदगी गी भलेआं नकारे दा नेईं ऐ । मते उदाहरणे च मिलदे अपवाद दे बावजूद भद्रवाही च 'ष' अजें दी मजूद ऐ ।

उदाहरण—निषाद, कृष्ण, भाषा, दोष, विषय आदि ।

अपवाद—संतोख, विश्व, मनुक्ष, अशीण, पुश्पक, शीश आदि ।

3. 3. भद्रवाही बोली दी शब्दावली दे मते-सारे शब्दे पर संस्कृत भाषा दा स्पष्ट प्रभाव ल'वदा ऐ, इसलेईं ए डोगरी दी निस्वत संस्कृत दे मती कोल ऐ ।

उदाहरण— भद्रवाही संस्कृत

(क) भोते भवति (ए. व.)

भोतन भवन्ति (व. व.)

खातन् खावन्ति „

आसन् अस्मान „

पढ़तथ पठथ „

तू चलोरस चं चलसि (म. पु. ए. व.)

(ख) भद्र. नीरु आशापति पर्वतरां निस्ते ।

सं. नीरु आशापति पर्वतात् निस्सरति ।

भद्र. तैस्मां क्रृषि भरद्वाज राहे (भ. रा. पृ. 1)

सं. तस्मिन् क्रृषि भरद्वाजः वसति ।

भद्र. ज्ञान विज्ञाने तृप्तात्मा कूटस्थ जित इन्द्री युक्त । (भ. गी. पृ. 101)

सं. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय (गी. 9-8)

भ. निर्मान मोही जितसंग दोषो, अध्यात्मेमा नित संतोषी ।

सुख-दुख द्वन्द्वे मुक्त निष्काम मुनिपातन ते अविनाश-धाम । (भ. गी.)

सं. निर्मान मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवम-कामः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञेगच्छस्त्यमूढाः पदमव्ययंतत् (गी. 1515)

(क) शिव शिव लिंगोउ सदाशिव लिंगोउ ।

आंहन मेले कुंगू पूजे मेले लिंगोउ ।

हे शिवजी भगवान्, हे शिवलिंग रूप भगवान् शिव, तुस खुद सदा शिवलिंग रूप ओ । कुंकम ल्यागे ते तुन्दी पूजा करगे । (भ. लो. अ. पृ. 39)

(ख) तै अनन्तनाग रूपे वासुकि नागे । (भ. त भड. पृ. 50)

(ग) जय उमा शंकर जय भूतेश्वरम् । (,, „ „)

3. 4. उपर दिते दे विस्तृत सर्वेखन कोला ए तथ्य स्पष्ट होई जन्दा ऐ जे भद्रवाही ते डोगरी दोऐ इकै स्रोत कोला निकली दियां न । इसै करी दोऐ पच्छमतर प्हाड़ी ग्रुप कन्ने सरबन्ध रखदियां न । आदकाल च दौनें दा मुख लोत संस्कृत गै हा । भाएं भद्रवाही नै डोगरी दी निस्वत संस्कृत भाशा दे मते शब्द सम्हाली रख्वे दे न, ताँ वी भद्रवाही डोगरी दी उपभाशा गै प्रतीत होंदी ए । कीजे डोगरी दा खेतर भद्रवाही कोला मता बड़ा ए । भद्रवाही दा संरचना-विधान होरनी पड़ोसी बोलियें दी अपेक्षा डोगरी कोला मता प्रभावत ए ।

००००

लखारी भ्रायें अग्गें नवेदन

असेंगी पता लगा ए जे किश लोक अनधिकृत तौरा पर शीराजा डोगरी दे नां पर नमें लेखके कोला उन्दियां रचनां लै करदे न । लेखक भ्रायें अग्गें साढ़ा नवेदन ए जे असें कुसै वी आदमी गी ए अधिकार नेईं सौंपे दा । इस चाल्ली दे विचकोले हृत्यें गुम होने आली रचनायें दी अस जुम्मेवारी कबूल नेईं करगे । नवेदन ए जे शीराजा डोगरी गितै अपनियां रचनां सिद्धे सम्पादक दे नां दस्ती जां डाक राहें भेजियां जान ।

रचना भेजने दा पता :

ओम गोस्वामी

(सम्पादक डोगरी)

जे. एण्ड के. कल्वरल अकैडमी,

केनाल रोड, जम्मू तवी—1800 01